

सराहनीय कार्य दिनांक 01.09.2021

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्फटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी यातायात पुलिस/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:-01-09-2021 को जनपदीय पुलिस एवं यातायात पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 448 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 86 वाहनों का चालान कर ₹ 92,900/-शमन शुल्क वसूल किया गया।

सराहनीय कार्य दिनांक 01.09.2021

आज दिनांक:-01-09-2021 दिन बुधवार को माननीय सांसद डुमरियागंज श्री जगदम्बिका पाल एवं माननीय विधायक डुमरियागंज श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह की प्रेरणा से जनपद सिद्धार्थनगर में नवनिर्मित थाना शिवनगर डिडई का उद्घाटन श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती श्री अनिल कुमार रॉय के कर कमलों द्वारा जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर श्री दीपक मीणा एवं पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ यशवीर सिंह की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया ॥

उद्घाटन पश्चात उपस्थित गणमान्य एव पुलिसकर्मियों से रूबरू होते हुए पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती श्री अनिल कुमार रॉय ने कहा कि इस नवनिर्मित थाने पर नवनियुक्त पुलिसकर्मी के लिए तीन काम सबसे महत्वपूर्ण है। जिसमें प्रथम यह है कि समाज को अपराध मुक्त बनाया जाय ,दूसरा काम है कि यदि कोई अपराध घटित हो जाय तो उसका त्वरित अनावरण होना चाहिए ,तीसरा काम है कि अपराध करने वाले को सजा दिलाना। उन्होंने कहा कि जनता को पुलिस से बड़ी अपेक्षाएं है। जिसमें पुलिस को कर्तव्यनिष्ठा के साथ पालन करना बेहतर पुलिसिंग की पहचान है।

महोदय ने पुलिस कर्मियों को कर्तव्यों के पालन का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि आप लोग समाज के हर अंग के साथ मिलकर काम करे लोगो के बीच से पुलिस का डर को दूर करे उन्होंने स्वच्छता एवं पोषण वाटिका पर विचार व्यक्त किया। क्षेत्राधिकारी सदर राणा महेंद्र प्रताप सिंह के संचालन में नवनियुक्त थानाध्यक्ष श्री भानु प्रताप सिंह ने आभार व्यक्त किया।

इस मौके पर जॉइन्ट मजिस्ट्रेट बाँसी श्री जगप्रवेश,अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत, क्षेत्राधिकारी बाँसी श्री अरुण चन्द्र, थानाक्षेत्र में पड़ने वाले समस्त ग्रामसभा के ग्राम प्रधानों, जनप्रतिनिधियों सहित भारी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे।